

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 82 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 मार्च 2019 — फाल्गुन 16, शक 1940

---

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2019

क्रमांक 2545/डी. 65/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 06-03-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 3 सन् 2019)

### छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) अधिनियम, 2019

वित्तीय वर्ष 2019-2020 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम .

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- |   |    |   |
|---|----|---|
| संक्षिप्त नाम.  | 1. | यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) अधिनियम, 2019 कहलाएगा.   |
| वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए राज्य की संचित निधि में से 9,58,99,45,00,000/- रुपयों का दिया जाना. | 2. | छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग पनचानबे हजार आठ सौ निन्यावे करोड़ पैतालिस लाख रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे. |
| विनियोग.  | 3. | इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.  |

**वर्ष 2019-2020 के लिये अनुदानों की मांगों तथा विनियोगों की अनुसूची**  
(राज्यपाल द्वारा सिफारिश किये गये रूप में)

मांग संख्या	सेवा या प्रशासन जिससे अनुदान की मांग संबंधित है		सम्पूर्ण धनराशि		
			मतदेय	भारित	योग
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	0	47,53,99,53,000	47,53,99,53,000
..	भारित विनियोग- लोक ऋण	पूंजी	0	29,06,50,48,000	29,06,50,48,000
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	3,22,05,13,000	35,66,35,000	3,57,71,48,000
		पूंजी	50,07,00,000	0	50,07,00,000
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	30,58,35,000	0	30,58,35,000
03	पुलिस	राजस्व	44,38,07,45,000	66,00,000	44,38,73,45,000
		पूंजी	66,38,50,000	0	66,38,50,000
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	53,47,48,000	0	53,47,48,000
		पूंजी	5,77,00,000	0	5,77,00,000
05	जेल	राजस्व	1,83,12,45,000	10,000	1,83,12,55,000
		पूंजी	50,00,000	0	50,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	85,76,25,00,000	10,41,000	85,76,35,41,000
		पूंजी	40,00,000	0	40,00,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,74,90,23,000	60,06,35,000	3,34,96,58,000
		पूंजी	1,75,10,000	0	1,75,10,000
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	9,01,88,05,000	15,26,000	9,02,03,31,000
		पूंजी	91,47,50,000	0	91,47,50,000
09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	21,62,60,000	10,000	21,62,70,000
		पूंजी	50,00,000	0	50,00,000
10	वन	राजस्व	10,62,49,19,000	10,80,70,000	10,73,29,89,000
		पूंजी	22,56,80,000	0	22,56,80,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,77,21,71,000	25,000	2,77,21,96,000
		पूंजी	64,17,10,000	5,00,000	64,22,10,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	19,36,57,70,000	2,30,00,00,000	21,66,57,70,000
		पूंजी	3,70,44,11,000	0	3,70,44,11,000
13	कृषि	राजस्व	39,72,10,44,000	17,50,000	39,72,27,94,000
		पूंजी	9,96,10,000	0	9,96,10,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,12,06,14,000	20,000	5,12,06,34,000
		पूंजी	28,68,00,000	0	28,68,00,000
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	2,42,07,47,000	0	2,42,07,47,000
		पूंजी	42,00,00,000	0	42,00,00,000
16	मछली पालन	राजस्व	68,53,29,000	20,000	68,53,49,000
		पूंजी	75,00,000	0	75,00,000
17	सहकारिता	राजस्व	9,13,54,09,000	15,000	9,13,54,24,000
		पूंजी	18,80,02,000	0	18,80,02,000
18	श्रम	राजस्व	2,04,72,70,000	20,000	2,04,72,90,000



मांग संख्या	सेवा या प्रशासन जिससे अनुदान की मांग संबंधित है		सम्पूर्ण धनराशि		
			मतदेय	भरित	योग
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	19,37,48,80,000	16,50,000	19,37,65,30,000
		पूंजी	67,44,00,000	0	67,44,00,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	3,55,95,18,000	15,00,000	3,56,10,18,000
		पूंजी	2,81,49,60,000	0	2,81,49,60,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,99,53,20,000	0	1,99,53,20,000
		पूंजी	3,66,42,10,000	0	3,66,42,10,000
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय निकाय	राजस्व	22,78,40,000	5,000	22,78,45,000
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	6,08,20,45,000	1,10,000	6,08,21,55,000
		पूंजी	4,61,08,59,000	55,00,000	4,61,63,59,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	13,21,17,10,000	0	13,21,17,10,000
		पूंजी	14,34,84,00,000	20,01,30,000	14,54,85,30,000
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	3,46,71,60,000	5,00,000	3,46,76,60,000
		पूंजी	3,78,83,42,000	0	3,78,83,42,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	39,44,04,000	0	39,44,04,000
		पूंजी	1,50,00,000	0	1,50,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	42,20,45,77,000	5,00,000	42,20,50,77,000
		पूंजी	56,59,40,000	0	56,59,40,000
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	68,41,61,000	82,00,000	69,23,61,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	5,83,93,90,000	83,57,20,000	6,67,51,10,000
		पूंजी	14,66,00,000	1,02,00,000	15,68,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	26,96,96,88,000	2,00,000	26,96,98,88,000
		पूंजी	8,53,66,00,000	0	8,53,66,00,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	42,25,80,000	40,000	42,26,20,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,86,77,95,000	10,000	1,86,78,05,000
		पूंजी	5,00,000	0	5,00,000
33	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	39,96,39,54,000	10,00,000	39,96,49,54,000
		पूंजी	33,00,000	0	33,00,000
34	समाज कल्याण	राजस्व	87,61,79,000	40,000	87,62,19,000
		पूंजी	10,00,000	0	10,00,000
35	पुनर्वास	राजस्व	2,35,84,000	0	2,35,84,000
36	परिवहन	राजस्व	69,37,26,000	20,50,000	69,57,76,000
		पूंजी	3,70,00,000	0	3,70,00,000
37	पर्यटन	राजस्व	26,30,00,000	0	26,30,00,000
		पूंजी	32,70,00,000	0	32,70,00,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	27,38,31,30,000	50,000	27,38,31,80,000
		पूंजी	7,14,60,000	0	7,14,60,000
40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,37,39,000	0	4,37,39,000
		पूंजी	1,17,52,00,000	0	1,17,52,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोग	राजस्व	1,47,37,06,81,000	10,000	1,47,37,06,91,000
		पूंजी	28,09,46,65,000	15,00,000	28,09,61,65,000
42	अनुसूचित जनजाति उपयोग से संबंधित	पूंजी	9,98,72,50,000	8,70,00,000	10,07,42,50,000

क्र.सं.	सेवा या प्रशासन जिससे अनुदान की मांग संबंधित है		सम्पूर्ण धनराशि		
			मतदेय	भारित	योग
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल				
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	50,88,50,000	30,000	50,88,80,000
		पूंजी	2,50,00,000	0	2,50,00,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	7,28,99,80,000	70,000	7,29,00,50,000
		पूंजी	12,43,00,000	0	12,43,00,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	81,76,62,000	0	81,76,62,000
		पूंजी	3,45,51,00,000	0	3,45,51,00,000
46	विज्ञान और टेक्नालाजी	राजस्व	20,10,00,000	0	20,10,00,000
		पूंजी	2,00,00,000	0	2,00,00,000
47	कौशल विकास , तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	राजस्व	3,61,21,80,000	10,000	3,61,21,90,000
		पूंजी	36,99,50,000	0	36,99,50,000
49	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	5,84,70,000	0	5,84,70,000
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	3,26,85,000	0	3,26,85,000
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	11,24,50,000	0	11,24,50,000
		पूंजी	3,20,00,000	0	3,20,00,000
53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	20,15,47,000	0	20,15,47,000
		पूंजी	36,06,42,000	0	36,06,42,000
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	राजस्व	1,34,50,00,000	0	1,34,50,00,000
		पूंजी	27,00,00,000	0	27,00,00,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	10,50,49,70,000	10,000	10,50,49,80,000
		पूंजी	22,36,10,000	0	22,36,10,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	1,14,41,18,000	0	1,14,41,18,000
		पूंजी	2,60,00,000	0	2,60,00,000
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	6,36,00,49,000	0	6,36,00,49,000
		पूंजी	20,00,000	0	20,00,000
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राजस्व	80,00,000	0	80,00,000
		पूंजी	1,04,00,00,000	0	1,04,00,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	49,69,67,62,000	10,000	49,69,67,72,000
		पूंजी	11,48,72,93,000	0	11,48,72,93,000
65	विमानन विभाग	राजस्व	47,89,40,000	10,000	47,89,50,000
		पूंजी	20,05,00,000	0	20,05,00,000
66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	राजस्व	2,41,86,20,000	0	2,41,86,20,000
		पूंजी	24,73,00,000	0	24,73,00,000
67	लोक निर्माण कार्य - भवन	राजस्व	6,63,71,97,000	46,00,000	6,64,17,97,000
		पूंजी	6,68,35,21,000	0	6,68,35,21,000
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य - भवन	पूंजी	1,32,27,24,000	0	1,32,27,24,000
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण	राजस्व	9,46,23,77,000	0	9,46,23,77,000
71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	राजस्व	1,21,16,97,000	0	1,21,16,97,000



मांग संख्या	सेवा या प्रशासन जिससे अनुदान की मांग संबंधित है		सम्पूर्ण धनराशि		
			मतदेय	भारित	योग
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	विभाग				
		पूंजी	7,83,01,000	0	7,83,01,000
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी	7,00,00,00,000	0	7,00,00,00,000
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी	6,10,92,00,000	0	6,10,92,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	7,08,51,75,000	4,20,000	7,08,55,95,000
		पूंजी	1,75,74,20,000	0	1,75,74,20,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	31,78,13,33,000	0	31,78,13,33,000
		पूंजी	1,25,00,00,000	0	1,25,00,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	13,03,43,10,000	71,34,50,000	13,74,77,60,000
		पूंजी	3,41,70,54,000	0	3,41,70,54,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	6,31,56,88,000	0	6,31,56,88,000
		पूंजी	1,05,00,00,000	0	1,05,00,00,000
83	अनुसूचित जनजाति उप योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	47,71,05,000	0	47,71,05,000
		पूंजी	35,31,00,000	0	35,31,00,000
	योग - राजस्व		7,43,62,81,73,000	52,48,65,25,000	7,96,11,46,98,000
	योग - पूंजी		1,33,50,99,24,000	29,36,98,78,000	1,62,87,98,02,000
	वृहद योग		8,77,13,80,97,000	81,85,64,03,000	9,58,99,45,00,000



अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2019

क्रमांक 2545/डी. 65/21-अ/प्रारू./छ.ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-3-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT  
(No. 3 of 2019)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 2) ACT, 2019

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2019-2020.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows :-

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation (No. 2) Act, 2019.   | Short title.  |
| 2. | From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Ninty Five Thousand Eight Hundred Ninty Nine Crore Fourty Five Lakh towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2019-2020 in respect of services specified in column (2) of the Schedule. | Issue of Rs. 9,58,99,45,00,000/- from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2019-2020. |
| 3. | The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said financial year.   | Appropriation.  |

THE SCHEDULE  
(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and purposes.		Sums not exceeding Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total
(1)	(2)		(3)		(4)
	Charged Appropriation- Interest Revenue		0	47,53,99,53,000	47,53,99,53,000
	Payments and Servicing of Debt.				
..	Charged Appropriation- Public Capital		0	29,06,50,48,000	29,06,50,48,000
	Debt.				
01	General Administration	Revenue	3,22,05,13,000	35,66,35,000	3,57,71,48,000
		Capital	50,07,00,000	0	50,07,00,000
02	Other expenditure pertaining to General Administration Department	Revenue	30,58,35,000	0	30,58,35,000
03	Police	Revenue	44,38,07,45,000	66,00,000	44,38,73,45,000
		Capital	66,38,50,000	0	66,38,50,000
04	Other expenditure pertaining to Home Department	Revenue	53,47,48,000	0	53,47,48,000
		Capital	5,77,00,000	0	5,77,00,000
05	Jail	Revenue	1,83,12,45,000	10,000	1,83,12,55,000
		Capital	50,00,000	0	50,00,000
06	Expenditure pertaining to Finance Department	Revenue	85,76,25,00,000	10,41,000	85,76,35,41,000
		Capital	40,00,000	0	40,00,000
07	Expenditure pertaining to Commercial Tax Department	Revenue	2,74,90,23,000	60,06,35,000	3,34,96,58,000
		Capital	1,75,10,000	0	1,75,10,000
08	Land revenue and district administration	Revenue	9,01,88,05,000	15,26,000	9,02,03,31,000
		Capital	91,47,50,000	0	91,47,50,000
09	Expenditure pertaining to Revenue Department	Revenue	21,62,60,000	10,000	21,62,70,000
		Capital	50,00,000	0	50,00,000
10	Forest	Revenue	10,62,49,19,000	10,80,70,000	10,73,29,89,000
		Capital	22,56,80,000	0	22,56,80,000
11	Expenditure pertaining to Commerce and Industry Department	Revenue	2,77,21,71,000	25,000	2,77,21,96,000
		Capital	64,17,10,000	5,00,000	64,22,10,000
12	Expenditure pertaining to Energy Department	Revenue	19,36,57,70,000	2,30,00,00,000	21,66,57,70,000
		Capital	3,70,44,11,000	0	3,70,44,11,000
13	Agriculture	Revenue	39,72,10,44,000	17,50,000	39,72,27,94,000
		Capital	9,96,10,000	0	9,96,10,000
14	Expenditure pertaining to Animal Husbandry Department	Revenue	5,12,06,14,000	20,000	5,12,06,34,000
		Capital	28,68,00,000	0	28,68,00,000
15	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	2,42,07,47,000	0	2,42,07,47,000



No. of Vote	Services and purposes.		Sums not exceeding Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total
(1)	(2)		(3)		(4)
	under Scheduled Caste Sub Plan				
		Capital	42,00,00,000	0	42,00,00,000
16	Expenditure pertaining to Fisheries Department	Revenue	68,53,29,000	20,000	68,53,49,000
		Capital	75,00,000	0	75,00,000
17	Co-operation	Revenue	9,13,54,09,000	15,000	9,13,54,24,000
		Capital	18,80,02,000	0	18,80,02,000
18	Labour	Revenue	2,04,72,70,000	20,000	2,04,72,90,000
19	Public Health and Family Welfare	Revenue	19,37,48,80,000	16,50,000	19,37,65,30,000
		Capital	67,44,00,000	0	67,44,00,000
20	Public Health Engineering	Revenue	3,55,95,18,000	15,00,000	3,56,10,18,000
		Capital	2,81,49,60,000	0	2,81,49,60,000
21	Expenditure pertaining to Housing and Environment Department	Revenue	1,99,53,20,000	0	1,99,53,20,000
		Capital	3,66,42,10,000	0	3,66,42,10,000
22	Urban Administration and Development Department - Urban Bodies	Revenue	22,78,40,000	5,000	22,78,45,000
23	Water Resources Department	Revenue	6,08,20,45,000	1,10,000	6,08,21,55,000
		Capital	4,61,08,59,000	55,00,000	4,61,63,59,000
24	Public works-roads and bridges	Revenue	13,21,17,10,000	0	13,21,17,10,000
		Capital	14,34,84,00,000	20,01,30,000	14,54,85,30,000
25	Expenditure pertaining to Mineral resources Department	Revenue	3,46,71,60,000	5,00,000	3,46,76,60,000
		Capital	3,78,83,42,000	0	3,78,83,42,000
26	Expenditure pertaining to Culture Department	Revenue	39,44,04,000	0	39,44,04,000
		Capital	1,50,00,000	0	1,50,00,000
27	School education	Revenue	42,20,45,77,000	5,00,000	42,20,50,77,000
		Capital	56,59,40,000	0	56,59,40,000
28	State Legislature	Revenue	68,41,61,000	82,00,000	69,23,61,000
29	Administration of Justice and Elections	Revenue	5,83,93,90,000	83,57,20,000	6,67,51,10,000
		Capital	14,66,00,000	1,02,00,000	15,68,00,000
30	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department	Revenue	26,96,96,88,000	2,00,000	26,96,98,88,000
		Capital	8,53,66,00,000	0	8,53,66,00,000
31	Expenditure pertaining to Planning Economics and Statistics Department	Revenue	42,25,80,000	40,000	42,26,20,000
32	Expenditure pertaining to Public Revenue Relations Department		1,86,77,95,000	10,000	1,86,78,05,000
		Capital	5,00,000	0	5,00,000
33	Expenditure pertaining to Tribal welfare Department	Revenue	39,96,39,54,000	10,00,000	39,96,49,54,000
		Capital	33,00,000	0	33,00,000

No. of Vote	Services and purposes.	Sums not exceeding		Total
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	
(1)	(2)	(3)		(4)
34	Expenditure pertaining to Social Revenue welfare Department	87,61,79,000	40,000	87,62,19,000
	Capital	10,00,000	0	10,00,000
35	Expenditure pertaining to Rehabilitation Department	2,35,84,000	0	2,35,84,000
36	Transport	69,37,26,000	20,50,000	69,57,76,000
	Capital	3,70,00,000	0	3,70,00,000
37	Tourism	26,30,00,000	0	26,30,00,000
	Capital	32,70,00,000	0	32,70,00,000
39	Expenditure pertaining to Food , Civil Supplies and Consumer Protection Department	27,38,31,30,000	50,000	27,38,31,80,000
	Capital	7,14,60,000	0	7,14,60,000
40	Expenditure pertaining to Ayacut Department	4,37,39,000	0	4,37,39,000
	Capital	1,17,52,00,000	0	1,17,52,00,000
41	Tribal Areas Sub-plan	1,47,37,06,81,000	10,000	1,47,37,06,91,000
	Capital	28,09,46,65,000	15,00,000	28,09,61,65,000
42	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-roads and bridges	9,98,72,50,000	8,70,00,000	10,07,42,50,000
43	Expenditure pertaining to Sports and Youth Welfare Department	50,88,50,000	30,000	50,88,80,000
	Capital	2,50,00,000	0	2,50,00,000
44	Expenditure pertaining to Higher Education Department	7,28,99,80,000	70,000	7,29,00,50,000
	Capital	12,43,00,000	0	12,43,00,000
45	Minor Irrigation Works	81,76,62,000	0	81,76,62,000
	Capital	3,45,51,00,000	0	3,45,51,00,000
46	Expenditure pertaining to Science and Technology Department	20,10,00,000	0	20,10,00,000
	Capital	2,00,00,000	0	2,00,00,000
47	Man-Power Planning and Technical Education Department	3,61,21,80,000	10,000	3,61,21,90,000
	Capital	36,99,50,000	0	36,99,50,000
49	Expenditure pertaining to Scheduled Caste Welfare	5,84,70,000	0	5,84,70,000
50	Expenditure pertaining to 20 Point Implementation Department	3,26,85,000	0	3,26,85,000
51	Expenditure pertaining to Religious Trusts and Endowments Department	11,24,50,000	0	11,24,50,000
	Capital	3,20,00,000	0	3,20,00,000
53	Financial assistance to Urban bodies under Scheduled Caste Sub Plan	20,15,47,000	0	20,15,47,000
	Capital	36,06,42,000	0	36,06,42,000



No. of Vote	Services and purposes.		Sums not exceeding Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total
(1)	(2)		(3)		(4)
54	Expenditure pertaining to Agricultural Research and Education	Revenue	1,34,50,00,000	0	1,34,50,00,000
		Capital	27,00,00,000	0	27,00,00,000
55	Expenditure pertaining to Women and Child Welfare	Revenue	10,50,49,70,000	10,000	10,50,49,80,000
		Capital	22,36,10,000	0	22,36,10,000
56	Rural Industries	Revenue	1,14,41,18,000	0	1,14,41,18,000
		Capital	2,60,00,000	0	2,60,00,000
58	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	6,36,00,49,000	0	6,36,00,49,000
		Capital	20,00,000	0	20,00,000
60	Expenditure pertaining to District plan schemes	Revenue	80,00,000	0	80,00,000
		Capital	1,04,00,00,000	0	1,04,00,00,000
64	Scheduled Caste Sub Plan	Revenue	49,69,67,62,000	10,000	49,69,67,72,000
		Capital	11,48,72,93,000	0	11,48,72,93,000
65	Aviation Department	Revenue	47,89,40,000	10,000	47,89,50,000
		Capital	20,05,00,000	0	20,05,00,000
66	Welfare of Backward Classes and Minorities	Revenue	2,41,86,20,000	0	2,41,86,20,000
		Capital	24,73,00,000	0	24,73,00,000
67	Public Works-Buildings	Revenue	6,63,71,97,000	46,00,000	6,64,17,97,000
		Capital	6,68,35,21,000	0	6,68,35,21,000
68	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan- buildings	Capital	1,32,27,24,000	0	1,32,27,24,000
69	Expenditure pertaining to Urban Administration and Development Department - Urban Welfare	Revenue	9,46,23,77,000	0	9,46,23,77,000
71	Electronics and Information Technology Department	Revenue	1,21,16,97,000	0	1,21,16,97,000
		Capital	7,83,01,000	0	7,83,01,000
75	NABARD aided Projects pertaining to Water Resources Department	Capital	7,00,00,00,000	0	7,00,00,00,000
76	Externally aided Projects pertaining to Public Works Department	Capital	6,10,92,00,000	0	6,10,92,00,000
79	Expenditure pertaining to Medical Education Department	Revenue	7,08,51,75,000	4,20,000	7,08,55,95,000
		Capital	1,75,74,20,000	0	1,75,74,20,000
80	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	31,78,13,33,000	0	31,78,13,33,000
		Capital	1,25,00,00,000	0	1,25,00,00,000
81	Financial assistance to Urban bodies	Revenue	13,03,43,10,000	71,34,50,000	13,74,77,60,000
		Capital	3,41,70,54,000	0	3,41,70,54,000
82	Financial assistance to Three	Revenue	6,31,56,88,000	0	6,31,56,88,000

No. of Vote	Services and purposes.	Sums not exceeding		Total
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	
(1)	(2)	(3)		(4)
	tier Panchayati Raj Institutions under the tribal area sub-plan			
	Capital	1,05,00,00,000	0	1,05,00,00,000
83	Financial assistance to urban bodies under the tribal area sub-plan	Revenue 47,71,05,000	0	47,71,05,000
	Capital	35,31,00,000	0	35,31,00,000
	<b>Total</b>	Revenue 7,43,62,81,73,000	52,48,65,25,000	7,96,11,46,98,000
		Capital 1,33,50,99,24,000	29,36,98,78,000	1,62,87,98,02,000
	<b>Grand Total</b>	8,77,13,80,97,000	81,85,64,03,000	9,58,99,45,00,000